

पुल

कुछ समय पहले जब मैं गीत लिख रहा था, तभी मुझे एक खयाल आया। क्या ही अच्छा हो अगर एक ऐसा गीत लिखा जाये जिसमें 'खुलापन और सकारात्मक' सोच हो, फिर उस गीत का दुनिया की सभी भाषाओं में अनुवाद हो, और फिर दुनिया भर के सभी संगीतकारों को उसे अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कहा जाये?

मैंने “पुल” लिखा और अब इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पाँच भाषाओं में प्रस्तुत कर रहा हूँ: चीनी, स्पैनिश, अंग्रेज़ी, बांगला और हिन्दी (मूल रूप से अंग्रेज़ी में)। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि इस गीत को अपनी भाषा में अनुवाद करें और इसे संगीत के सुरों में बाँधें। यह काम आप YouTube, MySpace या किसी भी अन्य तरीके से कर सकते हैं: अच्छा होगा यदि आप साथ में *thisisthebridge* का भी उल्लेख करें।

इस योजना के साथ मेरा कोई राजनीतिक, धार्मिक या वित्तीय इरादा नहीं जुड़ा है। यह तो शुद्ध “आनंद” के लिए है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर इस तरह की योजनाओं से लोगों के बीच यह जागरूकता बढ़े कि तमाम मतभेदों के बावजूद भी हमारे बीच बहुत कुछ साझा है – तो कितना अच्छा हो। उदाहरण के लिए - हमारा संगीत के प्रति लगाव।

कुछ मामलों में एक दूसरे की धुनों और/या अनुवादों का प्रयोग भी आसान हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस योजना के विकास के लिए कॉपीराइट अधिकारों को छोड़ देना अच्छा रहेगा।

शुभेच्छ,

पुल